



**SSC GK**

# **PYQs Class Notes**

**PART-3**

**Parmar Sir**

**Lecture:- 27**



**For Notes Join Telegram :**



**OR  
Scan**



**Click on the icon.**



**For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel**



**OR  
Scan**




**Click on the icon.**

# PYQ SERIES LECTURE 27

PARMAR  
SSC

- ① भारत की जनसंख्या को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभाजित किया गया है-
- मुख्य शमिक, सीमांत शमिक, गैर शमिक



शमिकों का सर्वाधिक % = HP, सिविकम, हृतीसगढ़

नार्थिकील जनसंख्या : ④

- (i) नृष्ट
- (ii) एवेतिहर मध्यदूर
- (iii) घरेलू औद्योगिक शमिक
- (iv) अन्य शमिक

$$\text{LFPR} \left\{ \begin{array}{l} F - 25.5\% \\ M - 53.25\% \end{array} \right.$$

- 2 भारत के संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है?

→ तानाशाही

लिखित संविधान - आसानी से संशोधन नहीं।

→ स्क्रिनिट न्यायिक प्रणाली : भारत शासन अधिनियम 1935

↓  
कैन & राष्ट्र दोनों पर लागू

मजबूत कैन के साथ संघवाद - कनाडा से

भारत एक अर्द्धसंघीय राज्य → K.C. हैचर

- 3 लोसूंग उत्सव \_\_\_\_\_ की क्टाई का उत्सव है?

→ सिविकम → लोसर, लौचार, सागादावा, सैकेवा

- ④ प्रकाश का एक हीटा स्नीत किसी अपारदेशी वस्तु की किस प्रकार की हाया बनाता है?  
 → तेज / Sharp ↳ जो प्रकाश को पार नहीं होता है।

प्रकाश: चाल =  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

निवति ✓


द्विविद्युत विभाजन ✓

अनुप्रस्थ तरंग

प्रकाश का परावर्तन: प्रकाश किरण का चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना।

परावर्तन के नियम: ① परावर्तन कीण, आपतन कीण के बराबर होता है।

$$\angle i = \angle r$$



② आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन विंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होती हैं जो परावर्तक सतह के तल के लंबवत होता है।



प्रकाश का अपवर्तन: यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह उपर्युक्त मार्ग से विचलित हो जाती है।

“प्रकाश की किरण का अपर्युक्त मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है।”

माध्यम के प्रकार:

1. विरल माध्यम

2. सघन माध्यम



## अपवर्तन के नियम:


1. आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन विंदु पर अभिलंब तीनों स्थानों समतल में होते हैं।

2.  $\frac{\sin i}{\sin e} = \text{निपत्तांक}$

ग्राह के स्लैब के माध्यम से अपवर्तन:

| Material medium | Refractive index | Material medium   | Refractive index |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Air             | 1.0003           | Canada Balsam     | 1.53             |
| Ice             | 1.31             | Rock salt         | 1.54             |
| Water           | 1.33             | Carbon disulphide | 1.63             |
| Alcohol         | 1.36             | Dense flint glass | 1.65             |
| Kerosene        | 1.44             | Ruby              | 1.71             |
| Fused quartz    | 1.46             | Sapphire          | 1.77             |
| Turpentine oil  | 1.47             | Diamond           | 2.42             |
| Benzene         | 1.50             |                   |                  |
| Crown glass     | 1.52             |                   |                  |

Densest medium



$$\angle i = \angle e$$

5 कौन सा अधिनियम प्रतिस्पापित या निरस्त किया गया है?

→ एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक त्यापार प्रबालः (MARP) अधिनियम, 1969

↓ प्रतिस्पापित करके

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

6 कौन ओडिसी जूत्य का प्रतिपादक है?

→ मायाघर राऊत

जनक = पंक्तचरण दास

|              |               |              |       |        |       |        |     |
|--------------|---------------|--------------|-------|--------|-------|--------|-----|
| भूतान        | के            | प्रदान       | मादवी | से     | मिलने | ओडिसा  | आये |
| ↓            |               | ↓            | ↓     |        |       |        |     |
| संघुन भूतानी | गंगाघर प्रदान | मादवी मुरुदल |       |        |       |        |     |
| विषय         | जै            | संजू         | &     | साहू   | कौ    | वताया। |     |
| ↓            |               | ↓            |       | ↓      |       |        |     |
| विषयनी       |               | संजुक्ता     |       | सुखाकर |       |        |     |
| सतपथी        |               | पानीम्रद     |       | साहु   |       |        |     |

महापात्र → कौलुचरण महापात्र

मणिपुरी → शुरुविपिन सिंह, झाविरी त्रट्टने, विश्वाकती देवी, निर्मला मेहता, देव्यानी चार्ल्स  
^  
भागीर्थ चौलीम

7 कौन सा व्याघ्र अर्थवेद से संबंधित है?

→ गोपव व्याघ्र

वेद- 4

संहिता - मन्त्री का संग्रह

अरण्यक - जंगली मैं (साधुओं हारा)

व्याघ्र - दिन-स्त्रिदिन

उपनिषद - सत्से ब्राह्मण मैं लुड़े

यजुर्वेद → शतपथ व्याघ्र

→ उपनिषद - ब्रह्मदारण्यक, तीक्ष्णीय, कठ

सामवेद - द्वान्द्वीय उपनिषद, कैन

अर्थवेद - 20 एवं 21 मैं विभागित

↳ माण्डुकीय उपनिषद → सत्यमेव पर्यते

महाउपनिषद → वसुष्येव नुट्ठवकम्

8 हम अपने जीवन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में घृतीत करते हैं?

→ द्वीभमण्डल - 13 km

9 1996-97 के केंद्रीय बजट में प्रारम्भ मैं कितने वर्षों के लिए विनिवेश आयोग स्थापित करने का नियम लिया गया था?

→ 3 साल

जीवी रामकृष्णा के अगुवाई में

10 भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का नियामन कौन है?

→ RBI

↳ जनक = मो. युनुस (बांगलादेश)

भारतमें पहला = SEWA - 1972

NABARD - 12 जुलाई 1982, बी.शिवरमण समिति

सैद्धी - 12 अप्रैल 1988

सैद्धी अधिनियम 1992

, पूँजी बाजार

सिड्धी - HQ - लखनऊ

11

चौंरी चौंरा की पटना — 1922 गे हुई ही /

→ 4 फरवरी

गोरक्षपुर (UP)

भिलियाबाला तांग हत्याकांड - 13 अप्रैल 1919 (रेलीवट स्कॉट के विफ़ान)   
 ↴ 1919

मौपला विहोद - केरल

एका आंदोलन - 1921

(मदारी पासी)

शुलहारा सुधार आंदोलन - 1920s

12

क्रेडिट स्नॉफ़मेंट गारंटी योजना अनुसूचित भिन्न जातियों के बीच — की स्थीत्यादि  
और बढ़ावा देती है। ↴ 2014-15

→ उद्यमिता

13

आंदोलिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार, पहली छँटी में उद्योग शामिल है,  
जिनके भविष्य के विकास की विमीदारी — की होगी।

→ केवल राज्य

1<sup>st</sup> → आंदोलिक नीति संकल्प, 1948

2<sup>nd</sup> → 1956 (आर्थिक संविधान) = 3 { अनुसूची A - राज्य (17) ] स्टील,  
,, B - राज्य + निजी (12)  
,, C - निजी (बची हुई)

बरमाणु ऊर्जा, दृष्टिकार और

ठोलाबालूद, आयरन &  
स्टील,

14

रंजुमानी सैकिया किस भारतीय शासीय लूट्य शैली की प्रतिपादन हैं?

→ सत्रिया (उसम)

↳ प्रनक = गुरु शंकर देव - 15<sup>th</sup> शताब्दी

↳ चाली, झुमरा, नाड़ु, भांगी

15

व्यवरण किस दिल्ली सुल्तान का गुलाम था?

→ बल्तुमिश

गुलाम रेश = मामलूल रेश

↓  
बुतुबुहीन रेश (1206-1210)

बल्तुमिश (1210-36)

रमिया सुल्तान - (1236-40)

व्यवरण (1266-1287)

चहलगानी & बक्ता व्यवस्था

- The first industrial revolution used water and steam power to mechanise production (the 1800s).
- The second used electric power to create mass production (the early 1900s).
- The third used electronics and information technology to automate production (the late 1900s).

16

वर्तमान में भारत \_\_\_\_\_ औद्योगिक क्रांति में है।

→ 4<sup>th</sup>

17

किसी पिंड की परमाणुओं द्वा आणुओं की गति से उत्पन्न होने वाली कार्य को पढ़चानें।

→ तापीय ऊर्जा

यांत्रिक ऊर्जा = शक्ति + स्थितिया ऊर्जा

$$\frac{1}{2}mv^2 \quad L, \text{ रिक्चा हुआतार } \\ \text{दृश्य में भरपानी}$$

$$K.E. = \frac{P^2}{2m}$$

18

स्वारंभिक वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को \_\_\_\_\_ के नाम से जाना जाता था।

→ गोमत

गवेषा - गाय की खोज

दुष्ट्री - गाय को दुलना / दूध निकालना


गविष्ठि - गाय के लिए युह

अयास - आयरन

19

इंडोपीरेंशियराइटिंग, दुर्दम्य रिंकेंट्स और पारिवारिक इंडोफोस्फेटेमिया के ब्लाज के लिए किस विटामिन की रुग्नालोंग का उपयोग किया जाता है?

→ अर्गोकॉल्डिस्फेरॉल



रेटिनॉल = विटामिन A

टीकीफेरॉल = E

विटामिन

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| A - रेटिनॉल         | → रत्तौंधि               |
| C - एस्कोर्बिक अम्ल | → रक्ती                  |
| D - कैल्शिफेरॉल     | - बीज / ओष्डोजवाह        |
| E - टीकीफेरॉल       | - बांझपन                 |
| K - फाइलीकिवजीन     | - रग्न का घेका जे बग्नना |

20

ਕਿਸ ਮੌਖਿਕੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗਹਾਰਾ ਦਿਲਾਇ ਹੀ ਤਥਾਂ ਵਾਰਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

→ ਝਸਾਨਕਰਮਿਨ → ਰਾਮਧਾਨੀ - ਕਾਨਕਕੁਨਡਾ

ਸੰਖਾਪਕ - ਝਕਤਰਕਰਮਿਨ

**Table 2. B-Vitamins**

- Vitamin B1 -- Thiamine
- Vitamin B2 -- Riboflavin
- Vitamin B3 -- Niacin
- Vitamin B5 -- Pantothenic acid
- Vitamin B6 -- Pyridoxine
- Vitamin B7 -- Biotin
- Vitamin B9 -- Folic Acid
- Vitamin B12 -- Cobalomin/  
Cyanocobalomin

